

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2016—ज्येष्ठ 26, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2016 (ज्येष्ठ 26, 1938)

विधान सभा के सदस्य की निधन की सूचना

क्र. 17189-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 179-नेपानगर (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू का दिनांक 9 जून, 2016 को निधन हो जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.